



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 137]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 3, 1977 भाषण 12, 1899

No. 137]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 3, 1977/SRAVANA 12, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3-d August 1977

SUBJECT—Issue of licences for import of raw materials and components to proposed units Submission of bond supported by bank guarantee

No. 56-ITC(PN)/77.—Attention is invited to para 86(9) of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1977-78 wherein it has been provided that proposed units are required to give a bond supported by a bank guarantee for an amount equal to 25 per cent of the cif value of the import licence/release order, undertaking to produce evidence to the licensing authorities for proper utilisation of the imported material within a specified time

2 It is clarified that the bond and bank guarantee referred to above shall be furnished by the units concerned for 25 per cent of the value of raw materials and components actually imported against a licence and not with reference to the cif value of the import licence. Import licences issued to the proposed units will accordingly be issued subject to the condition that the licensee shall

furnish a bond supported by a bank guarantee upto 25 per cent of the value of raw materials and components imported against licences, with the licensing authority at the port of clearance. The aforesaid bond and bank guarantee will be required to be given on each occasion and importation takes place against a licence, subsequently

3 The existing sentence in para 86(9) of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1977-78, may be deemed to have been substituted by the following.—

"In the case of proposed units referred to in sub para (4) above, the unit will be required to give a bond (Appendix 40) supported by a bank guarantee for an amount equally to 25 per cent of the value of raw materials and components actually imported against a licence, undertaking to produce evidence to the licensing authority for proper utilisation of the imported material within a specified time. Such a bond and bank guarantee will be required to be furnished by the licensee on each occasion an importation takes place against the licence."

A S GILL,

Chief Controller of Imports & Exports

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1977

विषय.—प्रस्तावित एककों के कच्चे माल एवं संघटकों के लिए आयात लाइसेंस जारी करना बैंक गारन्टी के साथ बाण्ड देना।

सं० 56-आई टी सी (पी एन) '77.—1977-78 वर्ष की आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं क्रियाविधि पुस्तक के पैरा 86(9) की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसमें इस बात की व्यवस्था है कि प्रस्तावित एकको को आयात लाइसेंस रिहाई आदेश के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के 25% की धनराशि की बैंक गारन्टी के साथ एक बाण्ड देना और लाइसेंस प्राधिकारी को निविष्ट समय में आयातित माल के उचित उपयोग का साक्ष्य देने का वचन देना अपेक्षित है।

2 यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त उल्लिखित बाण्ड और बैंक गारन्टी सम्बद्ध एकक द्वारा एक लाइसेंस के मद्दे वास्तव में आयातित कच्चे माल एवं संघटकों के मूल्य के 25% तक दिया जाना चाहिए न कि आयात लाइसेंस के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के लिए। प्रस्तावित एककों को जारी किए जाने वाले आयात लाइसेंस इस शर्त के अधीन जारी किए जाएंगे कि लाइसेंसधारी लाइसेंस के मद्दे आयातित कच्चे माल एवं संघटकों के मूल्य 25% तक बैंक गारन्टी के साथ बाण्ड लाइसेंस प्राधिकारी को निकासी के पत्तन पर देगा। पूर्वोक्त बाण्ड और बैंक गारन्टी प्रत्येक अवसर पर तब देना अपेक्षित होगा जब एक लाइसेंस के मद्दे आयात कर लिया गया हो।

3 1977-78 की आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं प्रियाविधि पुस्तक में पैरा 86(9) वर्तमान वाक्य को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए.—

“ऊपर के उप-पैरा (4) में उल्लिखित प्रस्तावित एकको के मामले में, एककों को बाण्ड के साथ लाइसेंस के मद्दे खास्तब में आयातित कच्चे माल और सघटको के पृथक् के 25% के बराबर की धनराशि की बैंक गारन्टी और लाइसेंस प्राधिकारी की निर्दिष्ट समय में आयातित माल के उचित उपयोग के साध्य देना अपेक्षित होगा। एक लाइसेंस के मद्दे जब भी माल आयात किया जाए, प्रत्येक अवसर पर लाइसेंस धारी को ऐसे बाण्ड और बैंक गारन्टी देना अपेक्षित होगी।”

ए० एस० गिल,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

